



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1977/पौष 21, 1898
No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1977/PAUSA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi the 11th January 1977

G.S.R 11(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts ground nut oil falling within Chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule and the additional duty leviable thereon under Section 3 of the Second mentioned Act

[No 7/F No 355/113/76-Cus I]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिमूचनाएं

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1977

सां० कां० नि० 11 (घ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अन्तर्गत सम्मिलित मूंगफली तेल को जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है ।

[स० 7/का० स० 355/113/76-सी० शु० 1]

G.S.R. 12(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts groundnut oil falling within Chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act

[No 8/F No 355/113/76-Cus I]

M JAYARAMAN, Under Secy

सा० का० नि० 12 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अन्तर्गत सम्मिलित मूंगफली तेल को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण महायक सीमाशुल्क से छूट देती है ।

[स० 8/का० स० 355/113/76-सी० शु० I]

एम० जयरामन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977